

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण ,
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 1979/कार्तिक 16, 1901
No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 1979/KARTIKA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-75, ई डी सी (पी एन) 79

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय.—विन्टेज कारों की निर्यात नीति ।

मिसिल संख्या-7(10)/1/77-ई-1.—अप्रैल, 1979—मार्च, 1980 की
निर्यात नीति की अनुसूची 1 के भाग-ख की क्रम संख्या 89(4) के सामने
दर्शाई गई विन्टेज मोटर कारों, उनके पुर्जों और संघटकों अर्थात् 1940 की

मोटर कारों और पहले के मॉडलों की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है विन्टेज कारों के लिए नीति के अनुसार में, सरकार सीमित आधार पर विन्टेज कारों के निर्यात की अनुमति के लिए मार्ग-दर्शन निर्धारित करना चाहती है और सरकार को इस कार्य को करने में समर्थ बनने के लिए विन्टेज कारों के इच्छुक निर्यातक अपनी कारें विन्टेज रजिस्टर इण्डियन ऑटोमोटिव्स रेसिंग क्लब लि., (पता : अल्फा मोटर कंपनी, लिबर्टी बिल्डिंग, चौथी मंजिल, मेरीन लाइन्स, बम्बई-400020) के पास इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकृत करा लें । लेकिन ऐसे पंजीकरण से व्यक्ति को कार के अन्तिम निर्यात का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा ।

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 75-ETC(PN)/79

New Delhi, the 7th November, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject : Export Policy of Vintage Cars.

File No. 7(10)/1/77-E.I.—Attention is invited to the Export Policy of Vintage Motor Cars parts and components thereof i.e. motor cars of 1940 and the earlier models appearing against S. No. 89(iv) of Part B of Schedule I of Export Policy April 1979—March 1980.

In pursuance of the Policy for Vintage Cars as mentioned above Government intends to evolve guidelines for allowing export of Vintage Cars on a limited basis and in order to enable the Government to do so, intending exporters of Vintage Cars may get their cars registered with the Vintage Register Indian Automotives Racing Club Ltd., (Address : Alpha Motor Company, Liberty Building, 4th Floor, Marine Lines, Bombay-400020) within a period of 60 days from the date of issue of this Public Notice. However, such registration will not confer any right on the person for eventual export of the car.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports.